


**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**
वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

18 जून 2025

## दिनांक 17 जून 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में)

| मुद्रा बाज़ार@               | मात्रा<br>(एक चरण) | भारित औसत दर | सीमा      |
|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) | 6,22,236.08        | 5.18         | 3.00-6.55 |
| I. मांग मुद्रा               | 13,828.18          | 5.26         | 4.50-5.35 |
| II. ट्राइपार्टी रेपो         | 4,09,067.30        | 5.20         | 5.01-5.25 |
| III. बाज़ार रेपो             | 1,96,647.50        | 5.14         | 3.00-5.59 |
| IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो  | 2,693.10           | 5.49         | 5.38-6.55 |
| ख. मीयादी खंड                |                    |              |           |
| I. सूचना मुद्रा**            | 45.90              | 5.17         | 5.10-5.25 |
| II. मीयादी मुद्रा@@          | 185.00             | -            | 5.50-6.00 |
| III. ट्राइपार्टी रेपो        | 4,474.00           | 5.18         | 5.15-5.40 |
| IV. बाज़ार रेपो              | 27.89              | 5.50         | 5.50-5.50 |
| V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो   | 0.00               | -            | -         |

| भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@                                                                      | नीलामी की तारीख     | अवधि<br>(दिवस) | परिपक्वता की तारीख | राशि         | वर्तमान<br>दर/ कट<br>ऑफ दर |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) |                     |                |                    |              |                            |
| I. आज के परिचालन                                                                                  |                     |                |                    |              |                            |
| 1. स्थिर दर                                                                                       |                     |                |                    |              |                            |
| 2. परिवर्तनीय दर&                                                                                 |                     |                |                    |              |                            |
| (I) मुख्य परिचालन                                                                                 |                     |                |                    |              |                            |
| (क) रेपो                                                                                          |                     |                |                    |              |                            |
| (ख) प्रतिवर्ती रेपो                                                                               |                     |                |                    |              |                            |
| (II) परिष्कृत कार्य परिचालन                                                                       |                     |                |                    |              |                            |
| (क) रेपो                                                                                          |                     |                |                    |              |                            |
| (ख) प्रतिवर्ती रेपो                                                                               |                     |                |                    |              |                            |
| 3. एमएसएफ़#                                                                                       | मंगलवार, 17/06/2025 | 1              | बुधवार, 18/06/2025 | 1,297.00     | 5.75                       |
| 4. एसडीएफ़^#                                                                                      | मंगलवार, 17/06/2025 | 1              | बुधवार, 18/06/2025 | 2,99,971.00  | 5.25                       |
| 5. आज के परिचालनों से उपलब्ध कराई गई निवल चलनिधि [अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-)]*                      |                     |                |                    | -2,98,674.00 |                            |

|                     |               |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| II.                 | बकाया परिचालन |  |  |  |  |
| 1. स्थिर दर         |               |  |  |  |  |
| 2. परिवर्तनीय दर&   |               |  |  |  |  |
| (I) मुख्य परिचालन   |               |  |  |  |  |
| (क) रेपो            |               |  |  |  |  |
| (ख) प्रतिवर्ती रेपो |               |  |  |  |  |

|    |                                                                                   |  |  |              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|
|    | (II) परिष्कृत कार्य परिचालन                                                       |  |  |              |  |
|    | (क) रेपो                                                                          |  |  |              |  |
|    | (ख) प्रतिवर्ती रेपो                                                               |  |  |              |  |
|    | 3. एसएसएफ#                                                                        |  |  |              |  |
|    | 4. एसडीएफ#                                                                        |  |  |              |  |
| घ. | भारतीय रिज़र्व बैंक से ली गई स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ)*                       |  |  | 8,471.32     |  |
| ङ. | बकाया परिचालनों से उपलब्ध कराई गई निवल चलनिधि [अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-)]*         |  |  | 8,471.32     |  |
| च. | आज के परिचालनों सहित उपलब्ध कराई गई बकाया निवल चलनिधि [अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-)]* |  |  | -2,90,202.68 |  |

#### आरक्षित नकदी की स्थिति@

|    |                                                           |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| छ. | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी स्थिति          |             |             |
|    | (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष                   | 17 जून 2025 | 9,57,930.37 |
|    | (ii) समाप्त पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी अपेक्षा | 27 जून 2025 | 9,54,173.00 |
| ज. | नीलामी के लिए सम्मिलित भारत सरकार का नकदी अधिशेष*         | 17 जून 2025 | 0.00        |
| झ. | निवल टिकाऊ चलनिधि [अधिशेष (+)/घाटा (-)]                   | 30 मई 2025  | 5,84,684.00 |

@ भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) पर आधारित।

- लागू नहीं / कोई लेन-देन नहीं।

\*\* 2 से 14 दिनों की अवधि के असंपार्श्विकृत लेन-देन से संबंधित है।

@@ 15 दिनों से एक वर्ष की अवधि के असंपार्श्विकृत लेन-देन से संबंधित है।

\$ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई पुनर्वित्त सुविधा सम्मिलित।

& दिनांक 6 फरवरी 2020 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2019-2020/1900 के अनुसार।

Δ दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

\* निवल चलनिधि का परिकलन रेपो+एसएसएफ+एसएलएफ-प्रतिवर्ती रेपो-एसडीएफ के रूप में किया गया है।

¥ दिनांक 19 मार्च 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2014-2015/1971 के अनुसार।

# दिनांक 27 दिसंबर 2023 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2023-24/1548 के अनुसार।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/556

अजीत प्रसाद  
उप महाप्रबंधक (संचार)